



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 माघ 1931 (श0)
(सं0 पटना 141) पटना, सोमवार, 15 फरवरी 2010

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 जून 2009

सं0 16/स्था0-31-02/2008-1309—विभागीय पत्रांक-1306 दिनांक 25 जून 2009 के द्वारा श्री चन्द्रशेखर प्रसाद (वि0प्र0से0) विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, दरभंगा की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को वापस कर दी गई है। फलस्वरूप श्री अशोक कुमार झा, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, दरभंगा के पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए सौंपा जाता है।

2. श्री इम्तियाज अहमद करीमी (वि0प्र0से0) विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, छपरा को अगले आदेश तक के लिए विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना, सासाराम को पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 515, दिनांक 23 मार्च 2009 को इस हदतक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 141-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>